



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 1981/पौष 17, 1902

No. 12] NEW DELHI WEDNESDAY, JANUARY 7, 1981/PAUSA 17, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1981

एस. ओ. 13(अ).—दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उप-खंड (1) के उपबन्धों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 19 के उपबन्धों के अनुपालन में, एतद्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, जिसका कार्यालय 17-बी, इन्दिरा एस्टेट, नई दिल्ली में है, और जो निम्नलिखित सभी सार्वजनिक परीक्षाओं अथवा इनमें से किसी एक के लिए छात्रों को तैयार करता है और उन्हें परीक्षाओं में बिठाता है अथवा इसके बाद तैयार करेगा — संघ शामिल क्षेत्र दिल्ली के स्कूलों के संबंध में एक उपर्युक्त प्राधिकरण के रूप में नामित करता है :— अर्थात्

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा,
 2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा ।
2. दिनांक एक सितम्बर, 1979 की समस्तस्थक अधिसूचना एतद्वारा रद्द की जाती है परन्तु इसे रद्द करने से उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य अथवा कार्रवाई की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं. एफ. 5-33/79-स्कूल-6]

मीर नसरुल्लाह, अपर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 1981

S.O. 13(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of section 2 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973), the Central Government hereby designates, for the purposes of the provisions of section 19 of that Act the Central Board of Secondary Education, having its office at 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi, as an appropriate authority in respect of school, in the Union Territory of Delhi which prepare, or may hereafter prepare, students for, and present them, to all or any of the following public examinations, namely :—

1. All India Secondary School Examination, conducted by the Central Board of Secondary Education, New Delhi.
2. All India Senior School Certificate Examination, conducted by the Central Board of Secondary Education, New Delhi.

2. The notification of even number dated the 1st September, 1979 is hereby cancelled, but such cancellation shall not affect the validity of any thing done or any action taken under the said notification before its cancellation.

[No. F. 5-33/79-School. 6]

MIR NASRULLAH, Addl. Secy.